

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
रुड़की – 247 667

केवल पूर्णत निर्भर परिवार सदस्यों के लिए चिकित्सा पुस्तिका बनवाने हेतु घोषणा पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि:-

- (1) निम्नलिखित मेरे परिवार के सदस्य है एवं पूर्ण रूप से मेरे ऊपर आश्रित है।
- (2) मेरे निम्नलिखित पुत्र व पुत्री अविवाहित हैं।
- (3) मेरे माता-पिता अपेशनरी हैं एवं उनका/उनकी आय का कोई अतिरिक्त स्रोत नहीं है तथा मेरे माता-पिता मेरे ऊपर ही आश्रित होने के साथ-साथ स्थाई रूप से मेरे साथ ही रुड़की स्थित मेरे आवास में रहते हैं।

सं. क्रि (S. No.)	नम (Name)	जन्मतिथि दिन/माह/वर्ष (Date of Birth)	कर्मचारी से सम्बन्ध (Relationship)	मसिक आय (यदि कोई हो) (Monthly Income(if any))	मैषमिक पुस्तिका सं० (Medical Booklet No.)	वैधता तिथि (कार्यालय द्वारा भरी जाये) (Validity Date)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

मै यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि:-

- (अ) मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त सूचना यदि गलत पाई जाती है तो संस्थान मेरे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के साथ-साथ मुझे तथा मेरे परिवार को संस्थान से मिलने वाले सभी चिकित्सा सुविधायें आगे हमेशा के लिए सक्षम होगा।
- (ब) जब कभी भी मेरे बच्चों का विवाह होगा या उनकी कोई आमदनी का स्रोत होगा या मेरे ऊपर आश्रित माता-पिता किसी और भाई-बहन पर आश्रित होंगे या स्थान परिवर्तित करेंगे तो तुरन्त सूचित करते हुए जारी चिकित्सा पुस्तिका वापिस जमा करा देंगा।
- (स) मुझे स्पष्ट कर दिया गया है कि आश्रित बेटे/बेटी की अधिकता पात्रता, जब वह अर्जन (**earning**) शुरू करे या उनकी शादी हो जाये या उसकी आयु 25 वर्ष हो जाये, जो पहले हो, तक है। बेटी हेतु आयु सीमा की बाधा नहीं है।

दिनांक:

जाँच उपरान्त अग्रसरित

हस्ताक्षर :

(Signature).....

कर्मचारी का नाम

(Name of Employee).....

पदनाम (Designation).....

कार्यलयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष मोहर सहित

(Head of the Department)

वर्तमान पता (Address).....

विभाग (Department).....

कर्मचारी सं० (Employee No.).....

मोबाइल न० (Mobile No.).....

ई-मेल (E-mail).....

श्री/ श्रीमति/ कुमारी..... पदनाम..... विभाग..... को
 जाँचोपरान्त क्रम सं०..... पर आवेदित चिकित्सा पुस्तिकायें जारी की जा सकती हैं।

अनुमोदित

जसंबंधित सहायक

अधीक्षक

सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव
 आई०आई०टी० रुड़की